

V2 Retail Limited

December 16, 2017

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,

Bandra-Kurla Complex,

Bandra (E),

Mumbai 4000 51

BSE (Bombay Stock Exchange) Limited,

25th Floor, "Phiroze Jeejeebhoy Towers",

Dalal Street,

Mumbai - 400001

Dear Sir,

Ref. Stock Code: V2RETAIL, 532867

Sub: Submission of Newspaper cutting of Extra - Ordinary General Meeting Notice published in

Newspapers

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed the Newspaper cuttings of the Extra - Ordinary General Meeting Notice published in the newspapers, Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on 16th December, 2017.

Kindly take the same in your records.

THANKING YOU

For V2 Retail-Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Nasik Date 16.12.2017

Director DIN: 01414729



V2/Retail/Limite®

Regd. Office: Khasra No. 928. Extended Lal Dora Abadi. Village Kapashera: Johai Vasani Vihar. New Delhi South West Delhi - 110337 CIN-1,74999DL2001PLC147774. Ph. 011-41771850. Email Id: cs@vifueLin. Website: www.v2retail.com

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING

(A) Extra Ordinary General Meeting;

NOTICE is hereby given that Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of V2 Retail Ltd. (the "Company") is scheduled to be held on Friday, January 12, 2018 at 10 A.M. at Khasra No. 1138, Shani Bazar Chowk, Rejokari, New Delhi 110038 to transact the business at set out in the Notice convening said EGM.

The Company has on: 15th December, 2017 completed the dispatch of notice of the EGM along with the attendance stip and proxy form, to the Members, whose names have appeared in the Register of Members for those holding in physical mode and as downloaded from NSDL. CDSL for those holding in dematerialized mode, either by email to the email IDs registered with the Company /Registrar & Share Transfer Agents (RTA)/ Depository Participant(s), as the case may be or by post at the address registered with the Company/RTA_EGM notice sent electronically have been displayed on the Company's Website www.vzretali.com and shall also be available for hispection by Members at the registered office of the Company on all working days, except Sundays and public holders, between 11a m. to 1 o.m. up to the all working days, except Sundays and public holidays, between 11a.m. to 1 p.m. up to the date of EGM

in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation A4 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically, from a place other than the venue of the EGM (remote e-voting) on all resolutions set forth in the notice, for which the Company these addaged the services of CDSI as e-votion approximate. has engaged the services of CDSL as e-voting agency

Further, the Yacility for voting through ballot paper spall be available at the EGM. The Members who have already dast instructe through reducts e-voting prior to the EGM may also altend the EGM but shall not be entitled to cast their vote at the EGM.

The remote a voting period commences on Juesday 9th January, 2011 at 3:00 a.m. (161) and The remote a voting period commences on Tuesday ym January, 2018 at 9 10 a.m. (167) and and on Thursday, \$1th January, 2018 at 5 00 p.m. (161). During the period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the culond date of 5th January, 2018, may cost their vota electronically. The Members may note that remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (161) on Thursday, 11th January, 2018.

The voting rights of members small be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on 5th January, 2018 (Cul-off Date). A person who was not a Member as on Cul-Off Date for reckoning voting rights; should treat the Notice for information purpose only.

In case a person has become Member of the Company after dispatch of the EGM notice and holding shares as on the cut-off date for e-voting i.e. 5th January. 2018, may obtain the User ID and password by sending a request to Link in Time India Pvt. Ltd on delhi@linkintime.co.in. However, if a Member is already registered with Link in Time India Pvt. Ltd. for remote 6-voting than he/she can use his/her existing User IQ and password for casting his/her vote.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the EGM of the Company and Members attending the EGM who have not already casted their vote by remote e-voting shall be able to vote at the EGM.

A person whose name is recorded in the Register of Members of in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositorics on an the cut-off date Le. 5th January. 2016 only, shall be entitled to avail the facility of remote a voting as well as voting in the Extra Ordinary.

in case of any grievance in respect of e-voling. Members may refer to the Help and Frequenty Asked. Questions: (FAQs). for Members! and e-voling user manual available at www.evolingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk evoling@cdsilindia.com or contact Mr. Umesh kumar. Company Secretary & Compliance Officer And Mr. Vipin Kaushik, Chief Financial Officer. Ph. No. (11-41771850, email id: cs.@vrl.net in for any other clarifications.

The results of e-voting shall be announced on or after the EGM of the Company. The results declared along with the Scrutnizer's Report shall be placed on the Company's website www.v2refal.com and on the website of Link in Time India Pyt. Ltd. Le www.linkintime.co.in for information to the Members, besides being communicated to the Stock Exchanges

A Member entitled to attend and vote at the EGM is entitled to appoint Proxy to attend and vote instead of himself and Proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing the Proxy, in order to be valid and effective, should be deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight hours before the commencement of EGM.

Notice of EGM is available on the website of the Company at www.v2retail.com and Link in Time India Pyt. Ltd on the wabsite www.linkintime.co.in.

For V2 Retail Limited

Sd Ram Chandra Agarwal Chairman & Managing Director DIN 00491885

NOTEL OTHER Resularges RequietC www.iereon Placi Rs. Date 12,424/plus urther iterest d other narges etc. iereon , speci o 7 (3)[7] Officer of India SL No 1 Rev. AT ALL DES NOT CONSTITUTE

On DESCRIPCIO NO RECTIMO UTSIDE NOIA. (a) (b) || Tota Ш Exp (a) (b) (c) Pur Ch Em 110 **(f)** Total y Vi Pro nii

(a) (b)

| Call | Will Oth | Cb. Lary, under the Companies Act, | IX | Total | Cb. Lary, under the Companies Act, | IX | Total | Cb. Lary, under the Companies Act, | IX | Total | Cb. Lary, under the Companies Conf. | IX | Early | Cb. Lary, under the Companies Conf. | Call | Cb. Lary, under the Companies Conf. | Call | Cb. Lary, under the Companies Conf. | Call | Cb. Lary, under the Companies Conf. | Call | Cb. Lary, under the Companies Conf. | Call | Cb. Lary, under the Companies Conf. | Call | Cb. Lary, under the Companies Act, under the Companies

The street syrvericies continues cont

See accor Nation

telha Communication

Meass
Sechols Diffes Limited (OUR COMPANY)
account Accessating UP to [1] MILLION
Theable Limited Right Promoter Selling
on 14 C. Language Parties are the Office Represented to the Company of the Office Representation of

3. The fine TRUITE AS IS OF GUM POST-OFFER PAID-

WIGHT DECIDED BY THE PROMOTER SELLING HAS EVENT THIS OF ENGLISH NATIONAL DALY and INCHES A NATIONAL DALY and INCHES A NATIONAL DALY and INCHES A NATIONAL DALY AND THE WARREST OFFICE IS FIRST IN THE START SHALL BE MADE THE INCHES AND SHALL BE MADE THE INCHES AND SHALL BE MADE THE STOCK ENCHANGES?

trom fi Accou Programme Sand Subject 5. The Course State of the FRUM: Marketing at the based Least Marketing at the

6. As at 30 ms. — exceptions e with Regulation 26(2) of lakins 8 ms. of an appropriate basis to QIBs. The lakins 8 ms. of an appropriate basis to QIBs. The new to the Approximation of the QIB Portion no adjust a second so of the QIB Portion shall be the recommended of the QIB Portion shall be

No.

Place: New Delhi Date: 15.12.2017

भगवानपुर सोलर प्रोजेक्ट्स प्राठ लिठ CIN : U454001R2016PTC058072 क्राउन प्लाजा दुहे, प्रथम तल, सेक्टर-29 एनएच-१, पुडेगांदा, हरियोक्ता- 122002 फार्म ने० आईएनसी-26

इ.सी.

चेत

ोपार

927

त्र खो

अथवा

अन्दर

र एवं

जौहरी

विल्ला 5818 हा लि

9*165

फार्स 16 आइएनसी 26 किपनी (निगमप) विशित्यमन, 2014 के नियम के अनुगलन में] समझ केंद्र सरकार, उत्तरी केंद्र, दिल्ली कंपनी अधिनिगम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धार 13(4) तथा कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30(6)(अ) के मामले में

मगवानपुर सोलर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिपिटेड विसका पंजीकृत कार्यालयः क्राउन प्लाजा हुद्देः प्रथम तल, सेक्टर-29, पनएच-8, युङ्गान, हरिक्षण 122002 में अवस्थित है, के मामले में सर्वसाधारण को एतदहार। सूचना दी आती है कि 30.11.2017 को आयोजित बार्षिक आसराधा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोर्रेडम ऑफ एसोसएशन में परिवर्तन के पुष्टीकरण हेत कंपनी ऑधीनयम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी केत्र साकार को एक आवेदन व्यक्ति करेंगे प्रमुख कंपनी को अपने एंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण "हरियाणा राज्य" के गुड़गांत से "ग्राष्ट्रीय राज्यानी क्षेत्र हिल्ली" के नई दिल्ली में करने का अधिकार प्राप्त हो जाए।

मंदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीका कार्यालय के प्रस्तावित स्थानीतरण से प्रधावित हो। तो वह हलफारामें में विरोध के आधार व प्रभावित होन बाले अपने/ अपनी हित की प्रकृति का जिल्ल क अपने अपने आपीत इस सूचना की प्रकासन विधि सं बीदह दिनों के भीतर संजीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बीद्य विंगु, हितीय बल, प्रयोवरण भवन, साजांद्रा कॉमप्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को दाखित का अथवा पंजीकृत डाक से उनके पास पहुंचे जाए तय उसकी एक प्रति आवेदक केपनी की भी उपर्युक्त पत पर अवस्थित उसके पंजीकृत कार्यालय में भिजवाएं।

आवेदक की ओर से तथा उनके लिए भगवानपुर सोलर प्रोजेवद्स आ० लि मानः नई दिल्ली हस्ता/-. निदेशक दिनांकः 01.12.201



क सा मंबीकृत गुंगी की फीन 011-की सार

प्रमन्स

िवेट

परिचालमाँ से कल आय अवधि के लिए गुद्ध लाभ/(राति) (मह. दिवें? पुर्श कर से पूर्व अवधि के लिए गुद्ध लाभ/(राति वर से पूर्व अवधि के लिए गुद्ध लाभ/(राति

बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/असी

क बाद) संबंधि हेतु कुल ज्यापक शाम (अस्तीक के) अन्य ज्यापक शाम (अस्तीक के) अन्य ज्यापक शाम (अस्त के बाद) ये व्यामित्र कप्त इकिस्टी गेमप पूर्ण (क. 107 प्रति) आ प्रश्नी आपश्चित (पानियाकन आवेशती को कोइन अतान समार्थ गई हैं "

आस प्रति शेयर (सम् मृत्य कः 10/- प्रति क्_{रान्य ह} - पुरा समय - शुक्र समय

के निवार के प्रमान्यक्रिक आर्थिक हैं कि दिल्ली के अंदिर सर्वेद्धितान के विद्याल की अंदिर सर्वेद्धितान के विद्याल के विद्

गनः नवं दिल्सी तिकः १४ दिसम्बर, २०११ JW, 2

नेग र

PUBLIC ANNOT NO. SEBI/HO/MRD/I SEBI CIRCULAR J FOR

ट्रायको लिभिटेड

ई-निविदाओं हेत् आमंत्रण सूचना

राष्ट्रीय राजवानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन दिल्ली द्वासको लिमिटेड द्वारा निन्नलिखित कार्यों हेतु त्रिविदाएं आसंत्रित की जाती है।

 निविद्यः सं टी17पी110914 : 220 सव-स्टेशनी में 220केवी एवं 66केवी ट्रॉमिनत क्योस्कों की अधिग्राप्ति आपूर्ति, प्रतिस्थापना एवं इंटीसी।

 निविदा सं. दी16मी130694 : एसएलडीसी विल्डिंग, मिन्हों सेंड में प्रथम तल स्थित कट्रोल रूप का नवीनीकरण / परिवर्तन ।

निविदा जमा करने की अंधिम तिथि: (12.01.2018 क्र. सं. 1 हेतु), एवं (27.12.2017 ानाव () जमा करन का आधार । क. श. 2 देतु) को 10:30 बची तक। विष्कृत जानकारी हेतु दिल्ली सरकार को बेबताइट है https://gov/procurement.delhLgov/n (गितिदा आईडी ने 2017 DTL 140748 1 & 2017_DTL_141991_1) और डीटीएल वेबसाइट www.dtl.gov.in (ग्रुनिक न DTL-5983-151217 & DTL-5984-151217) क्रम्श



वो2 रिटेल विमिटेड

प्रेची, जीवितया स्थापी १० ७२८, प्रशास्त्रेड वाच डॉम आंतरी, त्रेच इ.स.च.इ.स.च्या विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र वेद्य विश्वास्त्र वेद्य विश्वास्त्र वेद्य विश्वास्त्र वेद्य C.N. १७४७७०(१९०१) (१९४४) व्याप्तः १९५५ १४५० (१९४४) इस्ति वाइडी (१९४५) (१९४५) वेद्याप्तः १९४५ १४४वर्गः

असाधारण आम बैठक और ई-वोटिंग की सूधना

पुरवद्मात शुपित क्रिया जाता है कि बीट विदेश लिबिटेंब (ते "क्र्रियोग) की असावारण आब नैदन ((४लीप)) शुक्रवार 12 पानवरी 2019 की प्रता 10.00 बज, क्रसम की 1138 शाम श्राप्त और राजकरी, नहें बिटली-110038 में आयोजित यो जाएती. उत्ता देवीरम की सुरात में वर्णित व्यवसाय का निष्पादन क्रिया जाएगः।

शर्यात्य में सदस्यों क्षाय निरीक्षण के लिए उपलब्ध किया आऐंगा।

(an) ±_an≥π.

स्थानः नई दिल्ली शिथः 15.12.2017

कपनी अभिनिषम् 2013 को पात्र 108 के साथ परिता करनी (प्रधमन और प्रशासन) विवर्धा कान के निथम 20 और लिस्टिंग एटीनेट की खड़ 55वी के अनुमाजन ने सदस्यों को इलेक्ट्रिनिक रूप से आपना के जारने की सुरिका मुतान की जाएंगी की भुगता में शस्तिचित रूपी प्रस्तायें पर, ईसीएम के आयोजन रूपन के असीव किसी अग्र खान (रिसोट ई वोटिंग) से कर सकते हैं जिसके लिए कंपना ई-चोटिन एकेसी सार्वध्यस्त सुं सेवाएं सी हुई है।

इसके अलावा है जीएन में मतापत्र के मान्यम से बोट होने की सुकित वपत्रका परेंगी। त्रिप सप्तयों ने इंजीएन से पूर्व अपना योट रे-बोटिंग के माध्यम से दें दिया है वह भी ईजीएन में आग ते सकते हैं लेकिन एतें इंजीएन में अपना बोट देते को अनुमति सही होगी।

रिमीट ई-मीट्स की अविध नंगलवार 09 जनवर्ग 2018 को प्राप्त 200 पर्ग (आईएनवी) सर गुरू होगा औ पुरुषार (1 जनवर्ष, 2016 को साम 6200 दको (शहरपार्य) पर नंद लेगा। इस अवित के बीचन कपनी के सबसार या तो मीतिक त्वन ने या दिनहीरिसाकेक होता ने दोश सायब ठठ जनवर्ष 2016 को तर और तिथि के आधार पर अपने और इस्तेवहीतिक क्षय से आल सबसे हैं। सबस्यों को वह दात हो कि 11 जनवर्षी 2016 को शाम 500 बर्ज (आईएमटी) के बाद ई-बोटिय को अनुभति नहीं दी जाएगी।

का आने उपर ज्या (अपराप्ता) का का ने सरस्यों के महदाताओं के अधिकारों कर वापांप क्रमणी की जेड़ कि जानहीं, 2010 (कर ब्रिक्ट ब्रिक्ट के जापान में डोग)। महदाता अधिकारों के वापांप क्रमणी की जेड़ बन इंडिक्टी संस्त पूर्वी में उनके रिस्ते के जापान में डोग)। महदाता अधिकारों के विराग से कर-ऑफ तिथि में जम में सहस्य नहीं होने वादी जाती को जेवल चुम्मा के व्हेंस्थ के लिए सूममा को पाइन अस्ता सहित्य। नारी कोई मानित जो ईजीएन सुवान मेजाने के प्रस्तात कवनी जो शहरत पूराता के आरल करता बाहरर। वहीं कोई मानित जो ईजीएन सुवान मेजाने के प्रस्तात कवनी जो शहरत पूराता है और कट-ओफ तिक्रे प्राप्ति 65 जननर्था, 2018 के जीवार भरें सेम्बरण्य के तथा लिक इन टाइन श्रेडियों प्राप्तित लिक्टिंड के क्लेशि@\$nkintineco.h पर सूजर आईबी और पासवर्ड भारत कार सकते हैं। तमारी, और जोई व्यक्ति गर्डने से विक्र इन टाइन श्रेडियों प्रस्तेत किनिटेड के साथ ग्रंजीकृत है तो वह रिसोर ई-नीटिंस के जिए मीज्या सूजर आईडी एमें पासवर्ष बोट आनों से जिस श्रेसामाल कर स्ववस्ता है।

मतपत्र के माध्यम से महादान करने की हाविधा ईंडीएम में प्रचानक करावी जावनी और पंजीएम से माप सेने वार बित मुस्सवों में रिमोट, ई-चोटिंग के हाचा अपने मत नहीं असे हैं, वे ईंडीएम में भववान करीं में भवानातीय वह व्यक्ति जिलका नाम कट-जोफ शिवे अर्थात् ०५ जनहरी, २०१८ को सवस्थे के जीतस्वर से यजनिकृष्य नाम पुर क्षात्र अवस्ति हार कार १५ सामकारी स्वामिती के एजिस्टर में इर्ज हैं, केवल मही रिनेट हैं-वीटिंग वे हैं या डिपीमिटरी द्वारा कार भेरत में मतदान की सुदिया का लाम उदनों का कुरदार संगा।

हैं- व्यक्ति के श्रवंत में किसी में रिकायत के मानवें में सदस्य www.evolognida.co.in पर रूप्य संवयन के आमति जानका अध्यास जानका अपनी का है- वीटिंग उपयोगवारी पुन्तिका श्रीय प्रदेश पूछे जाने वाले प्रत्न (प्रवास्त्र) के लिए हैं- वीटिंग उपयोगवारी पुन्तिका श्रीय प्रत्ये पूछे जाने वाले प्रत्न (प्रवास्त्र) को श्रीय कीटिंग के सामने हैं या श्री उनेना कुमार केपनी स्वीव अञ्चलका अधिवारी कीट की विधिन कीविक मुख्य वितीय अधिवारी, कीटिंग व्यक्ति केपने स्वास्त्र हैं वा श्रीय नेता करने हैं वा श्रीय नेता कार्य कार्य कार्य कार्य कीटिंग कीविक मुख्य वितीय अधिवारी, कीटिंग व्यक्ति कार्य का

ई- वोटिंग का स्तोत्रा प्रश्नेत की उंपीरण में या उत्तकं बात ग्रीवित किया व्यानेत्रा । तिरीत्रण को रेपीर्ट के राम ग्रीवित वरिणान जरएयाँ वी जानवार्त्त के जिए प्रतीक प्रवादित को सुनित निधे जाने के ताल ताल कपनी की विसेत्राद www.vaelall.com तथा लिंक इन टाइव बुडिया ग्राइवेट चिनिटेड की व्यस्ताद ग्रावि अभ्या विवेदीकांत्रक co.in

बेदोंक में आम तमें और यहां मतदान करने का यायिकारों कोई भी सदस्य कामों रूपान एर ईजीएम में गार सेने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि को नियुश्त करने का अधिकारी है और तह प्रतिनिधि कामी जा सबस्य नहीं होना यादिए। केंद्र तीप ममावी होने के लिए प्रतिनिधि नियुक्ति सावन, इंजीएम के आधा होने से स्वारतिक होने पहले कोती के संगीतक स्वारतिक है हुए। किया विकास स्वारतिक स्वारतिक स्वारतिक स्वारतिक स्वारतिक स्व अस्तातील घटे गहले कंपनी के बंजीकृत कार्यालय में खग्रा किया जाना लाहिए।

इंडोरण को सूचना कांची। को व्यासाइट www.Vietal.com और हिंक उन टाइन डॉवेया प्राइट शिंगतंड क वैकास्ट www.linklotine.co.in वर प्रपत्न है।

बीट रिहेल लिमिटे क्ष्स्वा/-त सन्न अनुवार प्रमुख निदेशन

DIN 0049188



बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम)

रिफाइनरी & ऑयल फिरड सर्वितेज पंजी. कार्यालयः 21, एत एस रोड, कोलकाता-700.001

सीआईएन: L15492WB1924GOI004835, वेबसाइंट: www.balmenav फोन नं.: 2222-5627, फेन्स-22225335444, ई-सेल: banerjee a@balmeria

संक्षिप्त निविदा सूचना

नीचे उल्लिखित निविदा के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रस्ताव आयंत्रित किए निविदाः सं : आस्त्रोएफएस/2के 17/04/ईएनक्यू/आर01 नियत तिथि 26 को 15.00 बजे।

कार्य का नामः आएनजीसी असम ऐसेट्स के अधीन नाजिया एवं जोरहाट तैलीय आदों को उठाना, लदाई परिवहन तथा जेलेकी के सेंट्रल पिट में उ विस्तृत विवरण के लिए कृमया कंपनी को ईओक्सेस्पेट पोटल https://balmetlawri देखें अथवा वेयसाइट www.balmerlawrie.com से डाउनलोड करें।



स्टील अथॉरिटी ऑफ्र इण्डिया लिमिटेड

केंद्रीय तिपणन संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय/उत्तरी क्षेत्र

ारवी मज़िल, रकोप मीज़ार, नॉर्थ टॉवर (क्वर 1) तक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिल्ही 110092

बल्लभगढ़ स्थित सेल देयरहाउस, फ़रीदाब्रह में कार्यालय भवन, चारदीवारी और : व्यवस्था की अरम्मत के लिए ई- निविदा

निविदा सं. (RFX स.): 9000031702

器

RFx सं. 9000031702 के ई-निविता टस्सावेजों को दिमाक 16 12 2017 की सुबह 1 11.01 2018 के अपराहन 3:00 वर्ज तक सरील अधारिती आंग इपिडया लिपिटेड के पक्ष देवित्रक (साउरकाद्दानस्म) दास काल्यातर-(स्वारकीय सी)के गुप्तावयक प्रकारकारि वर्ग mttps://srm.saildsp.co.ln/से इंडिनलोड़ किया जा सकता है। उत्तरीदाबाद केंग्सस्य 04.01.2018 को सुबह 11:00 बजें की बोलो-पूर्व बैठक के उपरांत ई-निविद्या पर प्रशिक्ष बोलीदाताओं द्वारा पूरी-तरह से भरे हुए निवेदा दस्तावेजी को https://srm.salldsp.co 11.01-2018 को अपराहन 3.00 बजे तक अपलोड करना होगा। पूरे विवरण, डाउनलो अगले परिवर्तन के लिए, कृषय हमारी वेबसाइट www.saittenden https://srm.saildsp.co.in देखें। 🌸 सहायक महाप्रबंधक

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-1100 क्रांबीरेट आइडेटिटी नम्बर 127109b11973G01006454, वेबसाइट www.sall.o हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेव

WEC

काई एक सी आई सिमिटे

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड Container Corporation of India L

गईसीडी सगमकार्यः

निविदा सूचना (क्षेत्रल ई-टेंडर से माधाम से)

ै डीव्यों हैं - ओरबंता , आईसीडी - पूर्णानकाम एवं जाती केन अमार्गावद , क्षेत्रमा की प्रवेशन रवीक्षी) एवं आंक्टोबर की अपूर्णि एवं सुरसापना के लिए मेशन हैं - रेडारेश गढ़ावि के मारवान से वी निवेश कामती में जीनवाहर रहता हैं जाती है। विशेश करवादिन कर 1900 का का पूर्णान करने के बाद केवन बेबराइट, WWW. lenders/stant consCR प्रावनकोट किए जा सम्बत्ती हैं।

Contract to the second contract to the second	
निविदा संख्या	योजाराजाराज्यास्त्राक्षांक्षांक्षांत्रार्थाः
अनुमानित ज्ञागत	रू, 19:25 लाख
अनुबंध की अवधि	45 R T
परीहर,जमा साहिः 🐩	र 39,000/- ई-प्रतान के माध्यम से
दस्तावेज की सागत	रा १,000/- रामी बंद एवं प्रभारो लहित ई-मुगतान के आध्यम से
ਜਿਥੇਗ ਸ਼ੀਵੇਇਸ ਪੀਰ	क, 1,1067- सभी कर एवं प्रभातें (अ-प्रतिदेव) सहित ई-मृगसाय के पाछ
विकी भी दियि (ऑनलाइग)	16.12.2017 (11:00 44) d 08.51 7018 (% no 201 no
निविद्या जना करने की अंतिम तिथि एवं समय	09.61,2018 माँ 11:30 पत्री (एव
खोलने की तिक्रिय समय	10.01.2018 30 12:30.63

क्षीर बिना कोई कारण बताव किसी सा सभी रिविदाओं को निरस्त करने का अधिकार रखता है। जिल May Inderwized convCCIL पर लॉग ऑन करें।

पंजीगृत कार्यालयः आईएफसीकाई टावर, हा फोन: 011-4173200074179 वेबसाइट: भूभार्ट्सटीtd.co CIN: L74899DL1993GQ1

स्वना

घट भूजित किया जाता है कि निगालिंदित आईएफ़र्सालाई लाग दर्ग इकास्ट्रकार बाग III, IVऔर V प्रमाणपत्र निवेशकों को प्राप्त नहीं हुए हैं / गुम हो गुए ह इन्फ्राः सीरीजन्मः (वीटल)

3¢. ₹1.	धारक का नाम	फोलियो सं और गैन स	बाडों की सं.	विकत्प	प्रगणपत्र सं,	isi
1	नितिन एस अग्रवाल संयुक्त १- गोनाली अग्रवाल	2022955 ACVPA19880	4	N.	4000872	58694
	शोनाली एन अग्रवाल संयुक्त 1—नितिन अग्रवाल	2022956 AEYPA9181L	4	IV.	4000873	58695
3	दिनेश घन्द्र गर्मा	2024315 AJJPS3268G	4	.0	2011749	18943
4	संवित्त्वर पाल शिह	2028998 AJHPS3350B	4	11	2014554	20036
		2035861 ARYPS1938F	4	SÚ T	2017887	21327
6	अधिक ग्रह्म	2064525	4	11	2039099	27906